

Roll No. ....

**E-129****M. Com. (Fourth Semester) (Main/ATKT)****EXAMINATION, May-June, 2021****(Optional—Specialization)****(Optional Group—D : Taxation and Accounting)**

Paper D-II

INTEGRATED GOODS AND SERVICES TAX

Time : Three Hours ]

[ Maximum Marks : 80

नोट : निर्देशानुसार सभी खण्डों के उत्तर दीजिए।

Attempt all Sections as directed.

**खण्ड—अ**

प्रत्येक 1

**(Section—A)****वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय प्रश्न****(Objective/Multiple Choice Questions)**

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Attempt all questions.

सही उत्तर का चयन कीजिए :

Choose the correct answer :

1. भारत में जी. एस. टी. लागू हुआ :

(अ) 1-4-2016 को

(ब) 1-4-2017 को

(स) 1-4-2018 को

(द) 1-7-2017 को

GST was imposed in India on :

(a) 1-4-2016

(b) 1-4-2017

(c) 1-4-2018

(d) 1-7-2017

2. भारत में जी. एस. टी. लगता है :

(अ) सेवाओं की पूर्ति पर

(ब) राज्य के अंदर बिक्री पर

(स) अन्तर्राज्यीय बिक्री पर

(द) उपर्युक्त सभी

GST is imposed in India on :

(a) Supply of Services

(b) Sales within state

(c) Interstate sales

(d) All of the above

**P. T. O.**

3. इनपुट टैक्स क्रेडिट निम्नलिखित शुल्क के संबंध में मिलती है :

- (अ) CGST
- (ब) SGST
- (स) IGST
- (द) उपर्युक्त सभी

Input tax credit is available for the following :

- (a) CGST
- (b) SGST
- (c) IGST
- (d) All of the above

4. इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है :

- (अ) साधन सामग्री हेतु
- (ब) पूँजीगत माल हेतु
- (स) इनपुट सेवा हेतु
- (द) उपर्युक्त सभी

Input tax credit is allowed for :

- (a) Inputs material
- (b) Capital goods
- (c) Input services
- (d) All of the above

5. साधन सामग्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की दर है :

- (अ) 50%
- (ब) 100%
- (स) 10%
- (द) 3%

Rate of input tax credit regarding inputs :

- (a) 50%
- (b) 100%
- (c) 10%
- (d) 3%

6. व्यावसायिक भवन में प्रयुक्त माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिशत है :

- (अ) Nil
- (ब) 25%
- (स) 50%
- (द) 100%

Percentage of input tax credit for goods used in construction of commercial building :

- (a) Nil
- (b) 25%
- (c) 50%
- (d) 100%

7. कंपोजिशन की दशा में आगत कर क्रेडिट .....।

- (अ) प्राप्त होती है
- (ब) नहीं प्राप्त होती है
- (स) आंशिक रूप से प्राप्त होती है
- (द) केवल पूर्तिकर्ता को प्राप्त होती है

Input tax credit is ..... in case of composition.

- (a) Available
- (b) Not available
- (c) Partially available
- (d) Available only to supplier

8. विद्यार्थियों के उपयोग में आने वाली वस्तु करमुक्त नहीं है :

- (अ) पुस्तकें
- (ब) पेन
- (स) स्लेट
- (द) चॉक स्टिक

Tax free goods is not in case of sales to student :

- (a) Books
- (b) Pen
- (c) Slate
- (d) Chalk stick

9. करमुक्त वस्तुओं की अनुसूची है :

- (अ) I
- (ब) II
- (स) III
- (द) शून्य दर माल

Schedule for tax free goods in GST is :

- (a) I
- (b) II
- (c) III
- (d) Nil rate goods

10. मूल्यांकन नियमों की आवश्यकता होती है जब :

- (अ) बीजक मूल्य स्पष्ट नहीं दिया गया हो
- (ब) माल का प्रतिफल मुद्रा में नहीं दिया गया हो
- (स) माल एजेंट के माध्यम से प्रदान किया गया हो
- (द) उपर्युक्त सभी

Valuation rules required when :

- (a) Invoice price is not clear
- (b) Consideration is not shown in money
- (c) Goods supplied through agent
- (d) All of the above

11. माल एवं सेवा कर में मूल्यांकन के नियम दिये हैं :

- (अ) 1 से 9
- (ब) 10 से 18
- (स) 19 से 26
- (द) 27 से 35

Rules regarding valuation under GST are :

- (a) 1 to 9
- (b) 10 to 18
- (c) 19 to 26
- (d) 27 to 35

12. कम्पोजिशन अपनाने की सूचना दी जा सकती है :

- (अ) वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व
- (ब) वर्ष प्रारम्भ होने के 60 दिन के अन्दर
- (स) वर्ष समाप्त होने पर
- (द) कभी भी

Intimation composition may be file :

- (a) Before the commencement of the financial year
- (b) Within 60 days of commencement of year
- (c) Ending of the year
- (d) Any time

13. कंपोजिशन का विकल्प लेने वाले व्यापारी को :

- (अ) आगत कर क्रेडिट मिलती है
- (ब) आगत कर क्रेडिट नहीं मिलती है
- (स) स्टॉक की छूट मिलती है
- (द) चुकाए गए कर की छूट मिलती है

A composition dealer gets :

- (a) Input tax credit
- (b) Not input tax credit
- (c) Stock rebate
- (d) Rebate for paid tax

14. इनपुट टैक्स क्रेडिट की शर्त है :

- (अ) कर बीजक
- (ब) माल की प्राप्ति
- (स) कर का भुगतान
- (द) उपर्युक्त सभी

Condition for ITC :

- (a) Tax invoice
- (b) Receiving of goods
- (c) Payment of tax
- (d) All of the above

15. जॉब वर्कर को इनपुट्स भेजे जाते हैं :

- (अ) पूर्तिकर्ता द्वारा
- (ब) उत्पादक द्वारा
- (स) प्रधान द्वारा
- (द) उपर्युक्त सभी

Inputs are sent to job worker by :

- (a) Supplier
- (b) Producer
- (c) Principal
- (d) All of the above

16. जॉब वर्क है :

- (अ) सेवा की पूर्ति
- (ब) माल की पूर्ति
- (स) (अ) और (ब) दोनों
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Job work is a :

- (a) Supply of Services
- (b) Supply of goods
- (c) Both (a) and (b)
- (d) None of the above

17. जी. एस. टी. अधिनियम में पंजीयन की धारा है :

- (अ) धारा 6
- (ब) धारा 9
- (स) धारा 22
- (द) धारा 19

Section related to registration under GST Act :

- (a) Section 6
- (b) Section 9
- (c) Section 22
- (d) Section 19

18. निम्नलिखित पूर्तिकर्ता नहीं हो सकता है :

- (अ) ठेकेदार
- (ब) उपभोक्ता
- (स) बैंक
- (द) सेवा प्रदाता

The following may be not a supplier :

- (a) Contractor
- (b) Consumer
- (c) Bank
- (d) Service Provider

19. “कारोबार” में निम्नलिखित सम्मिलित है :

- (अ) सेवाएँ
- (ब) वाणिज्य
- (स) निर्माण
- (द) उपर्युक्त सभी

Following is included in ‘Business’ :

- (a) Services
- (b) Commerce
- (c) Manufacturing
- (d) All of the above

20. जी. एस. टी. में कर आरोपण व संग्रहण की धारा :

- (अ) 7
- (ब) 8
- (स) 9
- (द) उपर्युक्त सभी

Section applicable under GST for levy and collection of tax :

- (a) 7
- (b) 8
- (c) 9
- (d) All of the above

**खण्ड—ब**

**(Section—B)**

**अति लघु उत्तरीय प्रश्न**

**(Very Short Answer Type Questions)**

**नोट :** इस खण्ड से किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।

Write answer of any *eight* questions from this Section in two or three sentences. Each question carries 2 marks.

1. जी. एस. टी. चुकाने के लिए उत्तरदायी कौन है ?

Who is responsible to pay GST ?

**P. T. O.**

2. “भारत” को परिभाषित कीजिए।

Define “India”.

3. जी. एस. टी. के अंतर्गत पूर्ति का अर्थ समझाइए।

Discuss the meaning of supply under G. S. T.

4. करयोग्य घटना क्या है ?

What is taxable event ?

5. पंजीयन के लिए आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची दीजिए।

Give a list of documents should be enclosed with application for registration.

6. किन्हीं चार वस्तुओं के नाम लिखिए जिन पर जी. एस. टी. नहीं लगता।

Write names of any *four* commodities which are exempted from GST.

7. जी. एस. टी. से छूट प्राप्त पाँच सेवाओं के नाम दीजिए।

Mention *five* names of services exempt under GST.

8. कम्पोजिशन के लिए पात्र पूर्तिकर्ता कौन है ?

Who is eligible suppliers for composition ?

9. तलाशी क्या है ?

What is Search ?

**खण्ड—स**

**(Section—C)**

**लघु उत्तरीय प्रश्न**

**(Short Answer Type Questions)**

**नोट :** किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।

Attempt any *eight* questions in about 75 words. Each question carries 3 marks.

1. रिवर्स चार्ज क्या है ?

What is Reverse Charge ?

2. कंपोजिशन लेवी के अन्तर्गत करारोपण पर टिप्पणी लिखिए।

Write a note on taxation under Composition levy.

3. ई-कॉमर्स क्या है ?

What is e-Commerce ?

4. निपटारा आयोग को समझाइए।

Explain the Settlement Commission.

5. जी. एस. टी. रिफण्ड से आप क्या समझते हैं ?

What do you understand by GST Refund ?

6. जॉब वर्क में कर दायित्व की विवेचना कीजिए।

Discuss the tax liability in case of Job work.

7. मुद्रा में प्रतिफल नहीं होने की दशा में मूल्यांकन के नियम बताइए।

Discuss the rules for valuation where consideration is not shown in money.

8. ई-वे बिलिंग को समझाइए।

Explain the E-way Billing.

9. गिरफ्तार व्यक्ति को कौन से सुरक्षा उपाय प्रदान किये जाते हैं ?

What protection measures are provided to the arrested person ?

P. T. O.

खण्ड—द

(Section—D)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(Long Answer Type Questions)

नोट : इस खण्ड से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।

Write answer of any *four* questions from this Section. Each question carries 5 marks.

1. जी. एस. टी. लागू किये जाने के बाद की स्थिति की समीक्षा कीजिए व सुधार हेतु सुझाव दीजिए।

Evaluate the position after implementation of GST and make suggestions for improvement in this regard.

2. जून 2020 में समृद्धि पंप्स द्वारा 3000 पंपों का निर्माण किया गया। कम्पनी की मूल्य सूची के अनुसार प्रति पंप का मूल्य ₹ 500 है। जी. एस. टी. अतिरिक्त है। निर्माता द्वारा थोक में पूर्ति किए गए माल पर 20% बट्टा (मूल्य सूची ₹ 500 पर) दिया जाता है।

सितम्बर माह में 1750 पंप थोक में, 1020 पंप फुटकर में पूर्ति किए गए। शेष 230 पंप माह के अंत में स्टॉक के रूप में रहे। जी. एस. टी. की निर्धारित दर 18% है।

सितम्बर 2020 में समृद्धि पंप्स द्वारा भुगतान की गई जी. एस. टी. राशि बताइए। पंप निर्माण के लिए क्रय की गई उत्पादन सामग्री में ₹ 50,000 चुकाए गए जी. एस. टी. के शामिल हैं।

Samriddhi Pumps manufactured 3000 pumps during June 2020. Its price as per price list is ₹ 500 per pump, exclusive of taxes. The manufacturer offers 20% discount to wholesalers on the price list.

During the Sept. 1750 pumps were sold in wholesale, 1020 pumps were sold in retail. Balance quantity 230 pumps was in stock at the end of year. The effective rate of GST is 18%.

Calculate amount of GST payable by Samriddhi Pumps for the month of September. Inputs used in finished goods included ₹ 50,000 on account of GST paid.

3. अग्रिम न्यायिक निर्णय के उद्देश्य बताइए।

Describe the objectives of Advance Judicial decision.

4. जी. एस. टी. अधिनियम में आगत कर क्रेडिट के प्रावधान समझाइए।

Discuss the provisions regarding Input tax credit in GST Act.

5. आपूर्ति या प्रदाय से क्या आशय है ? आपूर्ति का क्षेत्र समझाइए।

What do you mean by Supply ? Discuss the scope of supply.